



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052025-263069
CG-DL-E-13052025-263069

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 13, 2025/वैशाख 23, 1947

No. 266]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 13, 2025/VAISAKHA 23, 1947

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2025

सा.का.नि. 309(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का-निर्माण (सिक्किम राज्य के गौरवशाली 50 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.—सिक्किम राज्य के गौरवशाली 50 वर्ष के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में केवल पचास रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमा और संरचना.—नियम 2 में उल्लिखित उपरोक्त मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
पचास रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	शुद्ध चांदी चांदी – 99.9 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.—सिक्के का डिज़ाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार .- सिक्किम राज्य के गौरवशाली 50 वर्ष के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए उपरोक्त मूल्यवर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

प्रथम अनुसूची

(नियम 4 देखें)

पचास रुपये

अग्र भाग :

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “50” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में सिक्किम राज्य के 50 साल पूरे होने का प्रतीक चिह्न होगा। सिक्के की उपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “राज्यत्व के 50 गौरवशाली वर्ष – सिक्किम” लिखा होगा। सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में “50 GLORIOUS YEARS OF STATEHOOD-SIKKIM” वर्णित होगा। सिक्किम राज्य के 50 साल पूरे होने का प्रतीक चिह्न के नीचे अन्तराष्ट्रीय अंको में वर्ष “1975-2025” लिखा होगा।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
पचास रुपये	40 ग्राम	प्रति 1000 में चांदी का 999 अंश। चांदी के अंश में 999 और उससे ऊपर होगी।	1/8000वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 39.995 ग्राम से 40.005 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/06/2025-सिक्का]

अनु पी. मथाई, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2025

G.S.R. 309(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Coinage (Issue of commemorative coin on the occasion of 50 Glorious Years of Statehood – Sikkim) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Denomination of coin.—The coin of Fifty Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of 50 Glorious Years of Statehood – Sikkim.

3. Dimension and composition of coin.—The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Fifty Rupees	Circular 44 millimeter	200	Pure Silver Silver - 99.9 %

4. Design.—The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. Standard weight and remedy allowed.—The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 to commemorate the occasion of 50 Glorious Years of Statehood – Sikkim and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

THE FIRST SCHEDULE

(See rule 4)

FIFTY RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “50” in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of coin shall bear logo of 50 Years celebration of Sikkim State in the center of the coin. The inscription “राज्यत्व के 50 गौरवशाली वर्ष – सिक्किम” shall be written in Devnagari script on the upper periphery and the inscription “50 GLORIOUS YEARS OF STATEHOOD-SIKKIM” in English shall be depicted on the lower periphery of the coin. The year “1975 -2025” in international numeral shall be written below the logo of 50 Years celebration of Sikkim State.

THE SECOND SCHEDULE**(See rule 5)**

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Fifty Rupees	40 Grams	999 parts of silver per 1000. The tolerance for Silver content shall be 999 and above.	1/8000th plus or minus that is to say weight could be 39.995 grams to 40.005 grams.

[F. No. 02/06/2025--Coin]

ANU P. MATHAI, Advisor